



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

12 चैत्र 1936 (श०)  
(सं० पटना 344) पटना, बुधवार, 2 अप्रील 2014

---

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

19 नवम्बर 2013

सं० 8/व० 3-157/03 अंश -I-1631—“ बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2013 ” (अधिसूचना संख्या 1318 दिनांक 16.09.2013) के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए गठित की जाने वाली समिति में जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान को सदस्य बनाया गया है।

“ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 ” की धारा-21 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय के प्रबंधन समिति में तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता/अभिभावक होने की अनिवार्यता के मद्देनजर “ बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 ” के नियम 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह के अध्यक्ष/प्रधान को तभी सदस्य बनाया जाएगा जब उनके बच्चे सम्बन्धित विद्यालय में नामांकित हों। यदि उनके बच्चे विद्यालय में नामांकित नहीं हों तो जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला समाख्या के महिला समूह से अन्य दो माताओं (प्रत्येक में से एक) को जिनके बच्चे विद्यालय में नामांकित हों आम सभा से चयन के द्वारा सदस्य बनाया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सत्यनारायण,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 344-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>